

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 364]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 26 जुलाई 2023 — श्रावण 4, शक 1945

संसदीय कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 12 जुलाई 2023

अधिसूचना

क्रमांक/381/एफ 2(3)/48/सं.का./2023.— छत्तीसगढ़ विधानसभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 (क्र. 7 सन् 1973) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य (रेल द्वारा निःशुल्क अभिवहन) नियम, 1978 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, जो दिनांक 24 अप्रैल, 2023 से भूतलक्षी प्रभाव से प्रवृत्त होगा, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में, —

- नियम 3 में, शब्द, अंक एवं चिन्ह “रेल एवं वायुयान द्वारा यात्रा, बोर्डिंग सहित रुपये 8,00,000/— (आठ लाख)” के स्थान पर, शब्द, अंक एवं चिन्ह “रेल एवं वायुयान द्वारा यात्रा, बोर्डिंग सहित रुपये 10,00,000/— (दस लाख)” प्रतिस्थापित किया जाये ।
- नियम 3 के परन्तुक में, शब्द, अंक एवं चिन्ह “उक्त अधिनियम की धारा 5—क के अधीन रेल एवं वायुयान द्वारा की गई यात्राओं पर किया गया कुल व्यय, बोर्डिंग सहित रुपये 8,00,000/— (आठ लाख) से अधिक नहीं होगा” के स्थान पर, शब्द, अंक एवं चिन्ह “उक्त अधिनियम की धारा 5—क के अधीन रेल एवं वायुयान द्वारा की गई यात्राओं पर किया गया कुल व्यय, बोर्डिंग सहित, रुपये 10,00,000 (दस लाख) से अधिक नहीं होगा” प्रतिस्थापित किया जाये ।
- नियम 7 के प्रमाण-पत्र में, शब्द, अंक एवं चिन्ह “रुपये 8,00,000/— (आठ लाख)” के स्थान पर, शब्द, अंक एवं चिन्ह “रुपये 10,00,000/— (दस लाख)” प्रतिस्थापित किया जाये ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एफ. केरकेट्टा, उप-सचिव.

अटल नगर, दिनांक 12 जुलाई 2023

क्रमांक/381/एफ 2(3)/48/सं.का./2023.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य (रेल द्वारा निः शुल्क अभिवहन) नियम, 1978 में संशोधन का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एफ. केरकेट्टा, उप-सचिव.

Atal Nagar, the 12th July 2023

NOTIFICATION

No/381/F-2(3)/48/P.A./2023.— In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 9 of the Chhattisgarh Vidhan Sabha Sadasya Veten, Bhatta Tatha Pension Adhiniyam, 1972 (No.7 of 1973), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Legislative Assembly members (Free Transit by Railway) Rules, 1978, with retrospective effect from 24th April, 2023, namely :-

AMENDMENT

In the said rules,-

1. In rule 3, for the words, figure and symbol "by Rail and Air including boarding Value upto Rupees 8,00,000/- (Eight Lac)", the words, figure and symbol "by Rail and Air including boarding Value upto Rupees 10,00,000/- (Ten Lac)" shall be substituted.
2. In Proviso of rule 3, for the words, figure and symbol "by rail or by air including boarding under Section 5-A in the said Act shall not exceed the amount of Rupees 8,00,000/- (Eight Lac)", the words, figure and symbol "by rail or air including boarding under Section 5-A in the said Act shall not exceed the amount of Rupees 10,00,000/- (Ten Lac)" shall be substituted.
3. In certificate of rule 7, for the words, figure and symbol "Rupees 8,00,000 (Eight Lac)", the words, figure and symbol "Rupees 10,00,000 (Ten Lac)" shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
F. KERKETTA, Deputy Secretary.